

केस स्टडी : के प्री- प्राइमरी के बच्चों के Online नामांकन, जिला हमीरपुर

यह केस स्टडी जिला हमीरपुर के प्री- प्राइमरी के बच्चों के नामांकन पर आधारित है। जिला हमीरपुर में छः ब्लॉक हैं। इन छः ब्लॉक में 2018 में 266 स्कूल, 2019 में 281 स्कूल तथा इस वर्ष 2020 में स्कूलों की संख्या बढ़कर 284 हो गयी है।



25 जुलाई 2020 से COVID-19 की वजह से प्री- प्राइमरी बच्चों का नामांकन ऑनलाइन शुरू किया गया। ऑनलाइन नामांकन के लिए एक लिंक बनाया गया, जिसे ब्लॉक के BRCC ,डाइट के DPO तथा प्री- प्राइमरी के व्हाटसअप ग्रुप में डाला गया ताकि स्कूल के अध्यापक तथा बच्चों के माता पिता आसानी से बच्चों का नामांकन उस लिंक के द्वारा कर सकें।

हम प्रतिदिन डैश बोर्ड में यह देखते थे कि कितने स्कूलों और कितने बच्चों का नामांकन हुआ। लेकिन हमने यह पाया की बच्चे बहुत कम नामांकित हुए थे। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या को देखते हुए हमने प्रत्येक ब्लॉक के BRCC तथा BEEO के साथ एक गूगल मीट का आयोजन किया, जिसमें यह तय किया गया कि हम व्यजिगत रूप से प्रत्येक स्कूल के अध्यापक से फोन के माध्यम से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे, कि बच्चों का नामांकन क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हमने उनसे बात की तो हमें पता चला कि कुछ अध्यापकों के फोन में नेटवर्क की

समस्या है जिसकी वजह से लिंक खुल नहीं रहा है, कुछ अध्यापको ने तो ग्रुपमे मैसेज पढ़ा ही नहीं था तथा कुछ अध्यापकों के पास स्मार्ट फोन नहीं थे।

इसी तरह हमने अध्यापकों की समस्याओं को देखते हुए उनकी समस्या के अनुसार उनकी मदद, की अध्यापक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके बच्चों की सारी जानकारी लेकर हमने उन बच्चों का नामांकन किया । इसी तरह सभी स्कूलों के अध्यापकों से बात करके धीरे- धीरे नामांकन की संख्या बढ़ी ।

शुरू में बच्चो का नामांकन केवल मात्र 600 तक हि सीमित था, लेकिन थोड़े से प्रयास से अब यह नामांकन 1520 तक हो गया है । जिला हमीरपुर के 284 स्कूलों में केवल मात्र 29 स्कूल ऐसे है जिन्होंने अपने स्कूल के बच्चो का नामांकन नहीं किया है ।



लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि जल्दी से सभी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन पूरी हो तथा बच्चो की संख्या में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो ।